



येरुशलम की अल-अक्सा मस्जिद

प्रलिमिंस के लिये:

येरुशलम की अल-अक्सा मस्जिद, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को), विश्व धरोहर स्थल, 1948 का अरब इज़रायल युद्ध, 1967 में छह-दिवसीय युद्ध, अब्राहम समझौता


मेन्स के लिये:

इज़रायल-फिलिस्तीनी संघर्ष, 1948 का अरब इज़रायल युद्ध, 1967 में छह-दिवसीय युद्ध, अब्राहम समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [येरुशलम की अल-अक्सा मस्जिद](#) में फिलिस्तीनी और इज़रायली सुरक्षा बलों के बीच हिसा से फरि तनाव बढ़ गया ।

- येरुशलम के पुराने शहर में स्थित यह स्थल दशकों से फिलिस्तीनियों कट्टरपंथी समूहों और इज़रायली सुरक्षा बलों के बीच हिसा का एक फ्लैशपॉइंट रहा है और ऐतिहासिक दावों के लिये प्रतिसिपर्धा के केंद्र में रहा है ।
- ये आवर्ती संघर्ष चल रहे [इज़रायल-फिलिस्तीनी संघर्ष](#) का हिस्सा है ।





अल-अक्सा मस्जिद और संबद्ध संघर्ष क्या है?

- अल-अक्सा मस्जिद येरुशलम के मान्यता प्राप्त स्मारकों में से एक है।
- यह स्थल येरुशलम के पुराने शहर का हिस्सा है, जो ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों का पवित्र स्थल है।
 - **संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को)** ने पुराने शहर येरुशलम और इसकी दीवारों को **वशिव धरोहर स्थल** के रूप में वर्गीकृत किया है।
- मस्जिद का परिसर इज़रायल और फलिस्तीन (इस्लाम और यहूदी धर्म) के बीच संघर्ष का कारण है।
 - अल-अक्सा मस्जिद इस्लाम के सबसे प्रतष्ठिति स्थानों में से एक है और टैंपल माउंट यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल है।
- टैंपल माउंट येरुशलम में पुराने शहर के अंदर एक चारदीवारी वाला परिसर है और यहाँ दो संरचनाएँ हैं:
 - उत्तर में डोम ऑफ द रॉक और दक्षिण में अल-अक्सा मस्जिद है।
 - टैंपल माउंट के दक्षिण-पश्चिम में, पश्चिमी दीवार, दूसरे मंदिर का अवशेष और यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल है।
- इस्लाम में डोम ऑफ द रॉक एक सातवीं शताब्दी की संरचना है, जो एक महत्त्वपूर्ण इस्लामी स्थापत्य है, माना जाता है कि जहाँ पैगंबर मुहम्मद स्वर्ग में चढ़े थे।
 - इस क्षेत्र में आधुनिक सीमाओं को तैयार करने से पहले, मुस्लिम पवित्र शहरों मक्का और मदीना के तीर्थयात्री इस मस्जिद में प्रार्थना करने के लिये येरुशलम में रुकते थे।
- यहूदी धर्म में, यह वह स्थान माना जाता है जहाँ भगवान ने आदम को बनाने के लिये धूल इकट्ठी की थी।
 - बाइबिल के अनुसार, 1000 ईसा पूर्व में राजा सुलेमान ने इस पहाड़ पर यहूदियों का पहला मंदिर बनवाया था, जैसा बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के आदेश पर बेबीलोन के सैनिकों ने लगभग 400 वर्षों बाद तोड़ दिया था।
 - पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, यहूदी अपने नरिवासन से लौटे और उन्होंने दूसरा मंदिर बनाया।

येरुशलम पर संघर्ष की भू-राजनीत क्या है?

- येरुशलम इज़रायल-फलिस्तीनी संघर्ष के केंद्र में रहा है।
- वर्ष 1947 की मूल **संयुक्त राष्ट्र (यूएन)** विभाजन योजना के अनुसार, येरुशलम को एक अंतरराष्ट्रीय शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया था।
- हालाँकि वर्ष **1948 के पहले अरब इज़रायल युद्ध** में, इज़रायलियों ने शहर के पश्चिमी आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया और जॉर्डन ने पुराने शहर सहित पूर्वी भाग पर कब्जा कर लिया, जिसमें हराम अल-शरीफ भी शामिल है।

- 1967 में **छह-दिवसीय युद्ध** के बाद, इज़रायल और अरब राज्यों के गठबंधन जिसमें मुख्य रूप से जॉर्डन, सीरिया और मिस्र शामिल थे, के बीच एक सशस्त्र संघर्ष के बाद, अल-अक्सा मस्जिद का नयितरण रखने वाले जॉर्डन के वक्फ मंत्रालय ने, देखरेख करना बंद कर दिया।
- इज़रायल ने 1967 के छह-दिवसीय युद्ध में जॉर्डन से पूर्वी येरुशलम पर कब्जा कर अपना हस्सिा घोषित कर दिया।
- अपने वलिय के बाद से इज़रायल ने पूर्वी येरुशलम में बस्तियों का वसितार किया है।
- इज़रायल पूरे शहर को अपनी "एकीकृत, शाश्वत राजधानी" के रूप में देखता है, जबकि राजनीतिक स्पेक्ट्रम में फलिस्तीनी नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया है कि वे भविष्य के फलिस्तीनी राज्य के लिये किसी भी समझौते के फार्मूले को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि पूर्वी येरुशलम इसकी राजधानी न हो।

आगे की राह

- बड़े पैमाने पर दुनिया में शांतिपूर्ण समाधान के लिये एक साथ आने की ज़रूरत है लेकिन इज़रायल सरकार और अन्य शामिल दलों की अनिच्छा ने इस मुद्दे को और अधिक जटिल कर दिया है।
 - इस प्रकार, एक संतुलित दृष्टिकोण अरब देशों और इज़रायल के बीच अनुकूल संबंधों को बनाए रखने में मदद करेगा।
- इज़रायल और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को के बीच हालिया सामान्यीकरण समझौते, जिन्हें अब्राहम समझौते के रूप में जाना जाता है, इसी दशा में एक कदम हैं।
 - सभी क्षेत्रीय शक्तियों को **अब्राहम समझौते** के अनुरूप दोनों देशों के बीच शांति की परिकल्पना करनी चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/jerusalem-al-aqsa-mosque>

